

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जुलाई 2014—आषाढ़ 14, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्र. 15-एफ-1-24-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा-5(1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर परिषद बनखेड़ी अधिसूचित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	क्षेत्र का विवरण (5)
1	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	1. ग्राम पंचायत बनखेड़ी 2. ग्राम पंचायत दहलवाड़ाकलां 3. ग्राम पंचायत रहटवाड़ा 4. ग्राम पंचायत कुलकुही 5. ग्राम पंचायत बदरझीला (गरधा)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.